



**GN-091**

**100330**

III Semester B.Com. Examination, December - 2019  
(CBCS) (Freshers) (2019-20 and Onwards)

**LANGUAGE HINDI - III**

**Natak, Sarkari Patra Evam Sankshepan**

Time : 3 Hours

Max. Marks : 70

I. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में लिखिए।

**1x10=10**

1. हरिणशावक को कौन अपनी सम्पत्ति बताता है?
2. कौन घाटी की पगडंडी पर नीचे-नीचे उतरते गयी, यह जानते हुए भी कि वर्षा होने वाली है?
3. उज्जयिनी का राजकवि किसे बनाया गया?
4. कुमारसम्भव और मेघदूत की रचना कालिदास ने कहाँ की थी?
5. नाट्य केन्द्र में संगिणी किसका अभ्यास करती है?
6. मल्लिका ने उज्जयिनी की ओर जाने वाले व्यवसायियों से क्या मँगवाया था?
7. देव मातृगुप्त कौन है?
8. मल्लिका के जर्जर घर का कौन परिसंस्कार करना चाहती है?
9. हरिणशावक को पार्वत्य-भूमि की सम्पत्ति किसने बताया?
10. 'आषाढ़ का एक दिन' के नाटककार कौन हैं?

**LIBRARY**  
**Surana College**  
**No. 16, South End Road,**  
**BANGALORE - 560 004**

II. निम्नलिखित संवादों में से किन्हीं दो की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए।

**2x6=12**

1. ये पृष्ठ अब कोरे कहाँ हैं मल्लिका? इन पर एक महाकाव्य की रचना हो चुकी है .... अनन्त सर्गों के एक महाकाव्य की।
2. मैं यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहता था? एक कारण यह भी था कि मुझे अपने पर विश्वास नहीं था। मैं नहीं जानता था कि अभाव और भर्त्सना का जीवन व्यतीत करने के बाद प्रतिष्ठा और सम्मान के वातावरण में जाकर मैं कैसा अनुभव करूँगा।
3. उसी तरह 'ऋतुसंहार' और 'मेघदूत' की पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। मैंने अपने भाव के कोष्ठ को रिक्त नहीं होने दिया। परन्तु मेरे अभाव की पीड़ा का अनुमान लगा सकते हो?
4. लोग सोचते हैं मैंने उस जीवन और वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा है। परन्तु मैं जानता हूँ कि मैंने वहाँ रहकर कुछ नहीं लिखा।

**P.T.O.**



- III. 'आषाढ़ का एक दिन' एक ऐसा नाटक है जो बाह्य और आंतरिक यथार्थ के अन्तर्द्वन्द्व को संवेदनशीलता के साथ देखता है - स्पष्ट कीजिए।

1x12=12

अथवा

'आषाढ़ का एक दिन' नाटक का सारांश लिखकर उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।

- IV. किसी एक पर टिप्पणी लिखिए :

1x6=6

1. निक्षेप।
2. मातुल।

- V. कोई दो पत्र लिखिए :

2x10=20

1. सचिव, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से एक अधिसूचना द्वारा सूचित कीजिए कि प्रशिक्षण प्राप्त कर लौटने पर भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय में उप-सचिव श्री विजय प्रताप शर्मा की सेवाएँ दिनांक 1 दिसम्बर 2019 से मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंपी जाएगी। अधिसूचना भारत के राजपत्र भाग -1, खंड - 2 में प्रकाशनार्थ।
2. श्री मनोज कुमार सिंह, उप निदेशक उद्योग विभाग, कर्नाटक सरकार की ओर से श्री. शंभुनाथ अनुवादक की दिनांक 3 दिसम्बर 2019 से 31 दिसम्बर 2019 तक 29 दिन की अर्जित छुट्टी स्वीकार करते हुए एक कार्यलय आदेश लिखिए।
3. तामिलनाडु राज्य में कई हिन्दी सेवी संस्थाओं में अनियमितताओं का पता चला है। इन संस्थाओं की गतिविधियों का निरीक्षण कर उसका एक रिपोर्ट माँगते हुए श्री शंकर मणि अय्यर, आई.ए.एस., सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से निदेशक, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, चेन्नई को एक सामान्य सरकारी पत्र लिखिए।

- VI. निम्नलिखित अनुच्छेद का उचित शीर्षक देते हुए एक तिहाई शब्दों में संक्षिप्तीकरण कीजिए :

1x10=10

चीन पहले लद्दाख को केन्द्रशासित क्षेत्र बनाने के निर्णय का विरोध कर चुका है। इसलिए भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रशासनिक संरचना में बदलाव उसका आंतरिक मामला है तथा चीन के साथ उसके सीमा विवाद से इसका कोई लेना देना नहीं है। चीन को यह भी याद दिलाया गया है कि किसी अन्य देश का भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। यह जगजाहिर है कि पाकिस्तान में अपने आर्थिक हितों को साधने के लिए चीन उसकी तरफदारी कर रहा है।

पाकिस्तान ने 23 सालों के लिए ग्वादर बंदरगाह परिसर के संचालन का पूरा अधिकार एक चीनी कम्पनी को दिया है क्योंकि कर्ज में डूबी सरकार के पास ऐसे निवेश की गुंजाइश नहीं है। रही बात पाकिस्तानी सरकार की, तो उसकी विदेश व सुरक्षा नीतियों का निर्धारण सेना कर रही है। भारत और अफगानिस्तान सहित दक्षिण एशिया में आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने में पाकिस्तान की भूमिका से चीन भी अनजान नहीं है।